

This question paper contains **6** printed pages]

EN—66—2017

FACULTY OF COMMERCE

B.Com. (First Year) (Second Semester) EXAMINATION

OCTOBER/NOVEMBER, 2017

FUNDAMENTALS OF STATISTICS AND MATHEMATICS-II

(MCQ & Theory)

(Friday, 13-10-2017)

Time : 10.00 a.m. to 12.00 noon

Time—2 Hours

Maximum Marks—40

- N.B. :— (i) Solve Question No. 1 on OMR sheet.
(ii) Question No. 1 and Question No. 2 are compulsory.
(iii) All questions carry equal marks.
(iv) Simple calculator is allowed.
- (i) प्रश्न क्रमांक 1 OMR sheet वरच सोडवा.
(ii) प्रश्न क्रमांक 1 आणि 2 हे अनिवार्य आहेत.
(iii) सर्व प्रश्नांना समान गुण आहेत.
(iv) साधे गणकयंत्र वापरण्यास परवानगी आहे.

MCQ

1. Multiple Choice Questions : 10

बहुपर्यायी प्रश्न :

- (i) Current year price and current year quantity is shown by :
(a) $p_0 q_0$ (b) $p_1 q_1$
(c) $p_0 q_1$ (d) $p_1 q_0$
- चालू वर्षाची किंमत आणि चालू वर्षाची मात्रा कोणत्या पर्यायाने दर्शविता येते ?
(a) $p_0 q_0$ (b) $p_1 q_1$
(c) $p_0 q_1$ (d) $p_1 q_0$

P.T.O.

(ii) Which index satisfies factor reversal test ?

- | | |
|----------------------|---------------------|
| (a) Laspeyre's Index | (b) Paasche's Index |
| (c) Fisher's Index | (d) None of these |

कोणता निर्देशांक 'कारक उत्क्राम्यता चाचणी' सफल करते ?

- | | |
|------------------------|----------------------|
| (a) लासपेअर निर्देशांक | (b) पासचे निर्देशांक |
| (c) फिशरचा निर्देशांक | (d) यापैकी नाही |

(iii) A matrix having only one row is called :

- | | |
|---------------------|-------------------|
| (a) Zero matrix | (b) Column matrix |
| (c) Diagonal matrix | (d) Row matrix |

ज्या सारणी फक्त एकच पंक्ती असते त्यास म्हणतात :

- | | |
|-----------------|------------------|
| (a) शुन्य सारणी | (b) स्तंभ सारणी |
| (c) कर्ण सारणी | (d) पंक्ती सारणी |

(iv) If $D = \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 7 \end{vmatrix}$, then find the value of 'D' :

- | | |
|-------|--------|
| (a) 2 | (b) 12 |
| (c) 8 | (d) 6 |

जर $D = \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 7 \end{vmatrix}$ असल्यास 'D'ची किंमत शोधा :

- | | |
|-------|--------|
| (a) 2 | (b) 12 |
| (c) 8 | (d) 6 |

(v) What will be the simple interest on Rs. 1,500 at 7% per year for 3 years ?

- | | |
|---------|---------|
| (a) 315 | (b) 314 |
| (c) 313 | (d) 312 |

1,500 रुपयाचे दरसाल दर शेकडा 7% व्याज दराने सरळ व्याज 3 (तीन) वर्षाचे किती ?

- | | |
|---------|---------|
| (a) 315 | (b) 314 |
| (c) 313 | (d) 312 |

(vi) In how many ways can the letters of the word 'TUESDAY' be arranged ?

- | | |
|----------|----------|
| (a) 5010 | (b) 5020 |
| (c) 5030 | (d) 5040 |

'TUESDAY' या शब्दाची अक्षरे किती भिन्न प्रकारे क्रमवार रचता येतील ?

- | | |
|----------|----------|
| (a) 5010 | (b) 5020 |
| (c) 5030 | (d) 5040 |

(vii) An agent sold Rs. 15,000 worth of some articles on a 5% commission basis. Find his amount of commission :

- | | |
|---------|---------|
| (a) 740 | (b) 750 |
| (c) 760 | (d) 770 |

एका एजंटाने 15,000 रु. मुल्याच्या काही वस्तू 5% कमीशनवर विकल्यास त्याची कमीशनची रक्कम काढा :

- | | |
|---------|---------|
| (a) 740 | (b) 750 |
| (c) 760 | (d) 770 |

(viii) Find the value of $8!$:

- | | |
|-----------|-----------|
| (a) 40320 | (b) 40330 |
| (c) 40340 | (d) 40350 |

$8!$ चे मुल्य शोधा :

- | | |
|-----------|-----------|
| (a) 40320 | (b) 40330 |
| (c) 40340 | (d) 40350 |

P.T.O.

- (ix) A bag contains 2 blue, 4 black, 7 white and 5 red balls. What is the probability of getting one blue or one black ball ?

- | | | | |
|-----|---------------|-----|---------------|
| (a) | $\frac{2}{3}$ | (b) | $\frac{3}{4}$ |
| (c) | $\frac{1}{3}$ | (d) | $\frac{1}{9}$ |

एका बँगमध्ये 2 निळे, 4 काळे, 7 पांढरे आणि 5 लाल चेंडू आहेत. त्यापैकी एक निळा किंवा एक काळा चेंडू मिळविण्याची संभाव्यता किती ?

- | | | | |
|-----|---------------|-----|---------------|
| (a) | $\frac{2}{3}$ | (b) | $\frac{3}{4}$ |
| (c) | $\frac{1}{3}$ | (d) | $\frac{1}{9}$ |

- (x) $\Sigma IV = 6600$ and $\Sigma V = 46$, Cost of Living Index number is :

- | | | | |
|-----|--------|-----|--------|
| (a) | 143.48 | (b) | 142.49 |
| (c) | 141.50 | (d) | 140.40 |

$\Sigma IV = 6600$ आणि $\Sigma V = 46$ आहे, तर निर्वाह व्यय निर्देशांक :

- | | | | |
|-----|--------|-----|--------|
| (a) | 143.48 | (b) | 142.49 |
| (c) | 141.50 | (d) | 140.40 |

Theory

2. Construct the Fisher's Ideal Index Number of price from the following information : 10

Commodity	2015		2016	
	Price	Quantity	Price	Quantity
A	06	50	10	56
B	02	100	02	120
C	04	60	06	60
D	10	30	12	24
E	08	40	12	36

खालील माहितीवरून फिशरचा आदर्श निर्देशांक काढा :

वस्तु	2015		2016	
	किंमत	मात्रा	किंमत	मात्रा
A	06	50	10	56
B	02	100	02	120
C	04	60	06	60
D	10	30	12	24
E	08	40	12	36

3. A bag contains 8 Black and 4 Red balls, 2 (two) balls are drawn at random. Find the probability of that balls is one is Red ball and another is Black ball. 10

एका बँग मध्ये 8 काळे आणि 4 लाल चेंडू आहेत. 2 (दोन) चेंडू दैवप्रवण मध्ये खाली पडले. तर पुढील शक्यता शोधा एक बॉल लाल होता व दुसरा काळा बॉल होता.

Or

(किंवा)

If

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 4 & 2 & 5 \\ 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 5 & 3 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \\ 2 & 2 & 4 \end{bmatrix} \text{ and } C = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & -4 \\ -5 & 3 & -6 \end{bmatrix}.$$

solve :

- (i) $A + B + C$
(ii) $3A + 2B + 2C$.

P.T.O.

जर

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 4 & 2 & 5 \\ 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 5 & 3 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \\ 2 & 2 & 4 \end{bmatrix} \text{ आणि } C = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & -4 \\ -5 & 3 & -6 \end{bmatrix}.$$

सोडवा :

- (i) $A + B + C$
(ii) $3A + 2B + 2C$.

4. Find the compound interest of the amount Rs. 75,000 at 4% per annum for 3 years. 10

75,000 रुपयाचे 4% दराने 3 वर्षासाठी गुंतविले असता त्या रक्कमेवरील चक्रवाढ व्याज काढा.

Or

(किंवा)

Find the value of :

$$(i) \frac{9!}{(6-2)!}$$

$$(ii) \frac{6!}{(6-2)!}$$

मुल्य शोधा :

$$(i) \frac{9!}{(6-2)!}$$

$$(ii) \frac{6!}{(6-2)!}$$